

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †4017
सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

इको-पर्यटन स्थलों पर सन क्रूज
†4017. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में मेगा पर्यटन विकास योजनाओं के एक भाग के रूप में पर्यटकों के बीच सन क्रूज की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर रही है और इसके लिए संयुक्त उद्यम बनाकर इको-पर्यटन के विभिन्न स्थानों पर सौर विद्युत चालित नौका सेवा शुरू किया है और इसका उपयोग राज्यों के जलाशय क्षेत्रों में मनोरंजन यात्राओं के संचालन के लिए किया जाएगा तथा इन सौर चालित नौकाओं का चयन उनकी स्थल संबंधी सुरक्षा और पारिस्थितिकी महत्व एवं नौकाओं की विनिर्दिष्ट चौड़ाई को बरकरार रखते हुए विद्युतीय कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए किया गया था और इसके लिए अनुमोदित परियोजनाओं के साथ राज्यों में अनेक दौर के अध्ययन तथा परीक्षण सेवाएँ की गई थीं;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसी नौका विहार कंपनियों के ऐसे संगठनों/मालिकों को क्या सहायता दी जा रही है; और
- (ग) इससे प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): सौर ऊर्जा से चलने वाली नौकाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की कोई विशिष्ट योजना/परियोजना नहीं है। हालाँकि, मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु इको-परिपथ और तटीय परिपथ को थीम के रूप में चिह्नित किया गया है। इको-परिपथ और तटीय परिपथ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): मंत्रालय सौर ऊर्जा से चलने वाली नौकाओं से उत्पन्न राजस्व के आंकड़े नहीं रखता है।

अनुबंध

इको-पर्यटन स्थलों पर सन क्रूज के सम्बन्ध में दिनांक 28.03.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +4017 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

देश में स्वदेश दर्शन योजना के इको-परिपथ थीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(राशि करोड़ रु में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	परिपथ और वर्ष का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	उत्तराखंड	2015-16	टिहरी झील के आसपास टिहरी-चंबा - सरैन में परिपथ का विकास।	69.17	65.71
2.	तेलंगाना	2015-16	महबूबनगर जिले (सोमसिला, सिंगोटम, कदलाईवनम, अक्कमहादेवी, इगलनपंता, फराहाबाद , उमा महेश्वरम , मल्लेतीर्थम) में परिपथ का विकास	91.62	87.04
3.	केरल	2015-16	पथानामथिट्टा - गवी - वागामोन - थेक्कडी का विकास ।	76.55	61.24
4.	मिजोरम	2016-17	आइजोल - रांपुइछिप - ख्वाफवाप - लेंगपुई - डर्टलांग - चटलांग - साकवरहमुइतुएतलांग - मुथी - बेरातलावंग - तुइरियल एयरफील्ड - हमुइफेंग में इको-एडवेंचर परिपथ का विकास	66.37	49.53
5.	मध्य प्रदेश	2017-18	गांधीसागर बांध ओंकारेश्वर -मंडलेश्वर बांध - इंदिरा सागर -बांध बांधबरगी -तवा बांध - भे -बांधडाघाट केन नदी -बाणसागर बांध - का विकास	94.61	79.70
6.	झारखंड	2018-19	दलमा - चांडिल - गेतालसूद - बेतला राष्ट्रीय उद्यान- मिरचैया - नेतरहाट का विकास	52.72	15.07
कुल				451.04	358.29

देश में स्वदेश दर्शन योजना के तटीय परिपथ थीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(राशि करोड़ रु में)

क. सं.	राज्य का नाम	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	2014-15	काकीनाडा - होप द्वीप - कोरिंगा वन अभ्यारण्य - पसारलापुडी - अडुरु - एस यनम-कोटिपल्ली अंजुना में परिपथ का विकास	67.84	67.84
2.	आंध्र प्रदेश	2015-16	नेल्लोर, पुलिकट झील, उबलंमादुगु जलप्रपात, नेलपट्टु बर्ड सैंक्चुअरी, मायपाडू बीच, रामातीर्थम का विकास	49.55	47.76
3.	पुदुचेरी	2015-16	डुबरेयापेट, अरीकेमेडु चाइना वीरमपट्टिनम, चुन्नबमार, नल्लावाडु, मानापेट, कालापेट, फ्रेंच क्वार्टर, तमिल क्वार्टर और यनम का विकास	58.44	61.82
4.	पश्चिम बंगाल	2015-16	उदयपुर- दीघा-शंकरपुर-ताजपुर-मंदारमिण-फ्रेजरगंज-बक्खलाई- हेनरीआईलैंड: तटीय परिपथ का विकास	67.99	68.31
5.	महाराष्ट्र	2015-16	सिंधुदुर्ग तटीय परिपथ (शिरोडा बीच, सागेश्वर, तारकरली, विजयदुर्ग (समुद्र तट और क्रीक), देवगढ़ (किला और समुद्र तट), मिताभाव, टोंडावली, मोसेहमद और निवाटी किला का विकास।	19.06	18.11
6.	गोवा	2016-17	सिन्कवेरिम-बागा, अंजुना-वेगाटोर, मोरजिम-केरी, अगुआडा किला और अगुआडा जेल का विकास ।	97.65	92.76
7.	ओडिशा	2016-17	गोपालपुर, बरकुल, सतपदा और तमपारा का विकास।	70.82	56.65
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप	2016-17	लांग आईलैंड-रॉस स्मिथ द्वीप - नील द्वीप-हैवलॉक द्वीप-बाराटांग द्वीप-पोर्ट ब्लेयर का विकास	27.57	13.46
9.	तमिलनाडु	2016-17	चेन्नई - ममल्लापुरम - रामेश्वरम-कुलासेकरन पट्टिनम - कन्याकुमारी का विकास	73.13	69.48
10.	गोवा	2017-18	रूआ डी ओरम क्रीक - डॉन पाउला -कोलवा - बेनौलिम का विकास	99.35	94.38
			कुल	631.4	590.57
